



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 चैत्र 1931 (श0)  
(सं0 पटना 122) पटना, शुक्रवार, 17 अप्रील 2009

(सं0 2/सी3-30134/2001 का0-1807)  
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

17 मार्च 2009

श्री वृज मोहन राय (बि0प्र0से0) कोटि क्रमांक-260/04, 123/08 तत्कालीन निदेशक लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण नालन्दा सम्प्रति उप निदेशक-सह-उप सचिव पंचायत राज, बिहार पटना के विरुद्ध बिना स्वीकृति प्राप्त किये मुख्यालय से अनुपस्थित रहने, योजनाओं की जांच कार्य में अभिरुचि नहीं लेकर टालमटोल की नीति अपनाने संबंधी प्रतिवेदित आरोपों की जांच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1090 दिनांक 02.02.2002 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित कर जांच पदाधिकारी आयुक्त, पटना प्रमंडल पटना को नियुक्त किया गया।

विभागीय कार्यवाही में जांच पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध सुसंगत कागजातों के पूर्ण समीक्षोपरान्त सरकार के आदेशानुसार श्री राय के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप को प्रथम द्रष्टव्या प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप निम्नांकित दण्ड संसूचित किया जाता है:-

(1) निन्दन वर्ष-2001-2002

(2) असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि की रोक।

**आदेश:-**आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री वृज मोहन राय (बि0प्र0से0) कोटि क्रमांक-260/04, 123/08 सम्प्रति उप-निदेशक-सह-उप सचिव पंचायत राज विभाग, बिहार पटना एवं अन्य संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
राजेन्द्र प्रसाद,  
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 122-571+10-डी0टी0पी0।